

Bihar News: धंधेबाज धड़ल्ले से बेच रहे थे नामी कंपनी के नकली सामान, पुलिस ने 50 लाख का प्रोडक्ट किया जब्त

दिल्ली से आए कंपनी के फील्ड अफसर पुनीत कुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि सीवान के कुछ दुकानों में नकली कॉस्मेटिक की बिक्री हो रही है. सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है.

By: कैलाश कश्यप | Updated : 30 Mar 2022 10:10 PM (IST)

Edited By: shravanis



सीवान: बिहार के सीवान जिले में बुधवार को नामी कंपनी के नकली सामान बेचने का पुलिस ने खुलासा किया है. दिल्ली से आई हिंदुस्तान लिवर की टीम व नगर थाने की पुलिस ने जिले के तेलहट्टा बाजार व बड़ी मस्जिद के पीछे कुल चार दुकानों में एक साथ छापेमारी की, जहां से हिंदुस्तान लिवर कंपनी के क्रीम, शैम्पू, साबुन सहित बहुत सारे नकली सामान जब्त किए गए, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है. इधर, इस कार्रवाई के बाद से जिले में नकली सामान बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है.

दिल्ली से आए कंपनी के फील्ड अफसर पुनीत कुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि सीवान के डीके कॉस्मेटिक, कृष्णा कॉस्मेटिक, मुकुंद कॉस्मेटिक व छोटे कुमार की दुकान में नकली कॉस्मेटिक की बिक्री हो रही है. सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है. बरामद नकली सामान की कीमत करीब 50 लाख के आस-पास की है. उनकी मानें तो दुकानदारों की इस हरकत से कंपनी को भारी नुकसान हुआ है. हमने पूरे मामले में एसपी से लिखित आवेदन देकर मदद मांगी थी.

Source: <https://www.abplive.com/states/bihar/businessmen-were-making-counterfeit-goods-of-a-well-known-company-the-police-confiscated-the-product-of-50-lakhs-ann-2091963>